



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 फाल्गुन 1930 (श0)  
(सं0 पटना 59) पटना, शुक्रवार, 6 मार्च 2009

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग  
(पशुपालन)

आदेश

18 दिसम्बर 2008

सं0 3नि0गो0(4)24/06प0पा0-447-नि0गो0-डा0 बलिराम भगत, तत्कालीन संयुक्त निदेशक, पशुपालन (सम्प्रति निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना) जिनकी जन्म तिथि 22.09.1949, सरकारी सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि 06.08.73, वर्ग -2 में योगदान की तिथि 11.07.80, संभावित सेवानिवृत्ति की तिथि 30.09.09, पशुपालन सेवा वर्ग-1, जिनका कोटि क्रमांक 284 है, के विरुद्ध सरकारी आदेश की हठधर्मिता के साथ अवहेलना कर अनुशासनहीन और अमर्यादित आचरण करने तथा अनावश्यक पत्राचार कर सरकारी श्रम, धन के अपव्यय करने के आरोप पर विभागीय पत्रांक 591नि0गो0 दिनांक-08.12.05 द्वारा विभागीय कार्यवाही चलायी गयी थी।

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी ने समर्पित किये गये जाँच प्रतिवेदन में डा0 भगत के विरुद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित बताते हुए यह अंकित किया है कि आरोपित पदाधिकारी ने स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता और हठधर्मिता का यथेष्ट परिचय दिया है तथा उनका आचरण उनके पद की श्रेष्ठता एवं गरिमा के अनुरूप नहीं है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन को प्रेषित करते हुए विभागीय पत्र संख्या-380नि0गो0 दिनांक-26.12.07 द्वारा डा0 भगत से द्वितीय कारणपृच्छा की गयी थी जिसे उन्होंने अपने पत्रांक 74 दि016.01.08 से उपलब्ध कराया था। अपने उत्तर में डा0 भगत ने उल्लेख किया है कि जाँच पदाधिकारी का प्रतिवेदन निष्पक्ष नहीं है और भेदभावपूर्ण है। साथ ही प्रतिवेदन को उपेक्षापूर्ण और आक्रोशपूर्ण बताते हुए किसी ईमानदार हरिजन पदाधिकारी से जाँच कराने का उल्लेख किया है।

डा० भगत द्वारा समर्पित कारणपृच्छा उत्तर की समीक्षा सरकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट हुआ है कि जॉच पदाधिकारी के विरुद्ध डा० भगत ने आरोप लगाकर पुनः अपने उसी आचरण को संपुष्ट किया है जिसके कारण उनपर विभागीय कार्यवाही की गयी थी।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में डा० भगत से प्राप्त द्वितीय कारणपृच्छा तथा उपलब्ध समस्त अभिलेखों/कागजातों पर सम्यक् विचारोपरान्त डा० भगत को विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा बिहार सेवा संहिता के नियम 74 (क) के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार डा० बलिराम भगत, तत्कालीन संयुक्त निदेशक, पशुपालन (सम्प्रति निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना) को इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के प्रभाव से सरकारी सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है। इस आदेश के निगमोपरान्त इनका विभाग में ग्रहणाधिकार नहीं रहेगा।

आदेश— यह आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रतियाँ सभी संबंधित पदाधिकारी/प्राधिकार को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
एस० के० तिवारी,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 59-571+50-डी०टी०पी०।